

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
प्रेस विज्ञप्ति

नागर विमानन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2022 से पहले विशाल योग काउंटडाउन कार्यक्रम "योग प्रभा" का आयोजन किया

नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2022: नागर विमानन मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2022 को सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में एक विशाल योग काउंटडाउन कार्यक्रम "योग प्रभा" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री, जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त), श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष, भाविप्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस प्रातः कालीन कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) और अन्य संबद्ध विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के योग गुरु और उनकी टीम द्वारा सामान्य योग प्रोटोकॉल अभ्यास का प्रदर्शन किया गया।

योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है जो अंततः हमारे स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करता है। यह भारत के इतिहास (पूर्व-वैदिक काल) में प्राचीन काल से ही विद्यमान है और योग का अभ्यास मन और शरीर दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। योग की यह विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए गर्व की बात है क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत प्रातः सामूहिक योग प्रदर्शन के साथ शुरू होती है जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसके बाद योग से संबंधित अन्य गतिविधियां होती हैं।

21 जून, 2022 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने से लगभग दो महीने पहले काउंटडाउन कार्यक्रम के रूप में आयोजित यह पहल दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता के बारे में प्रतिभागियों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने में सहायक होगी।

निगमित संचार निदेशालय, भाविप्रा द्वारा जारी

विवरण के लिए कृपया संपर्क करें: महाप्रबंधक (निगमित संचार) 011-24622787

प्रेस विज्ञप्ति संख्या 04/2022-23